



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं० ३८५] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर २३, १९७०/कार्तिक १, १८९२

No. 385] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23, 1970/KARTIKA 1, 1892

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

---

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT  
AND COOPERATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

*New Delhi, the 23rd October 1970*

**S.O. 3490.**—Whereas I, P. G. T. Menezes, have been authorised by the Vegetable Oil Products Controller for India under sub-clause (a) of clause 2 of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, to exercise the powers of the Controller under the said Order:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 6 of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947 read with the notification of the Government of India in the late Ministry of Food and Agriculture No. C.S.R. 882 dated the 24th September, 1958, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food) No. S.O. 3317 dated the 7th October, 1970, I hereby fix, with the prior concurrence of the Central Government, the maximum

( 1707 )

prices at which vegetable oil products may be sold in the various zones specified below with effect from the 24th October, 1970, as follows:—

ZONE 'A'			ZONE 'B'		
Haryana, Jammu & Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Chandigarh, Delhi and Himachal Pradesh.			Andhra Pradesh, Kerala, Mysore, Tamil Nadu, Laccadive, Minicoy & Amindivi Islands & Pondicherry.		
By producer	By wholesaler	By retailer	By producer	By wholesaler	By retailer
(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
(a) <i>In tin containers</i> (Net capacity in kilogrammes)					
16.5 . . . . .	86.54	92.03	93.35	83.16	88.48
15.0(*) . . . . .	79.00	84.00	85.20	75.93	80.78
4.0 . . . . .	22.73	24.15	24.47	21.91	23.29
2.0 . . . . .	11.85	12.58	12.74	11.44	12.15
(b) <i>In returnable galvanised steel drums :</i>					
Per kilogramme net . . . . .	5.25	5.58	—	5.04	5.36
(c) <i>Loose in small quantities</i>					
Per kilogramme net . . . . .	—	—	5.66	—	5.44
ZONE 'C'			ZONE 'D'		
Assam, Bihar, Orissa, West Bengal, Andaman & Nicobar Islands, Manipur, Nagaland, N.E.F.A., Tripura and Meghalaya.			Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Dadra & Nagar Haveli, and Goa, Daman and Diu.		
By producer	By wholesaler	By retailer	By producer	By wholesaler	By retailer
(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
(a) <i>In tin containers</i> (Net capacity in kilogrammes):					
16.5 . . . . .	85.34	90.77	92.09	85.41	90.84
15.0(*) . . . . .	77.91	82.86	84.06	77.98	82.93
4.0 . . . . .	22.45	23.85	24.17	22.46	23.86
2.0 . . . . .	11.70	12.42	12.58	11.70	12.43
(b) <i>In returnable galvanised steel drums</i>					
Per kilogramme net . . . . .	5.17	5.50	—	5.18	5.51
<i>Loose in small quantities.</i>					
Per kilogramme net . . . . .	—	—	5.58	—	5.59

NOTE : (1) (\*) Aerated quality—Manufactured under special permission.

(2) The price limits for sale by producer specified above are inclusive of freight, but exclusive of exercise duty, sales tax, octroi, terminal tax and similar other local taxes.

(3) The price limits for sale by wholesaler and by retailer specified above are inclusive of freight and excise duty, but exclusive of sales tax, octroi, terminal tax and similar other local taxes.

Explanation :

In this notification,

- (i) "retailer" means a dealer who sells not more than 16.5 kilogrammes of vegetable oil product to any one consumer at a time.
- (ii) "wholesaler" means a dealer who sells vegetable oil product
- (a) to a retailer in any quantity, or
- (b) to a consumer exceeding 16.5 kilogrammes at a time.

[No. 12-2/70-C&P-V]

F. G. T. MENEGES,  
Director (Vanaspati).

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 1970

का० आ०. 3490—यतः में, एफ० जी० टी० मैनेजिज, वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947, के खण्ड 2 के उपखण्ड (क) के अधीन उक्त आदेश के अधीन की नियंत्रक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भारत के वनास्पति तेल उत्पाद नियंत्रक द्वारा, प्राधिकृत किया गया है।

अतः, अब, भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 882 तारीख 24 सितम्बर, 1958 के साथ पठित वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 3317 तारीख 7 अक्टूबर, 1970 को अधिकांत करते हुए मैं, एतद्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति से, अधिकतम कीमतें जिन पर वनस्पति तेल उत्पादों का नीचे विनिर्दिष्ट विभिन्न जोनों में 24 अक्टूबर 1970 से विक्रय किया जा सकेगा, निम्नलिखित रूप से नियत करता हूँ :—

जोन "क"

जोन "ख"

हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चण्डीगढ़ दिल्ली और हिमाचल प्रदेश				मध्य प्रदेश, केरल, मैसूर, तामिलनाडु लक्कादीव, मिजोरम और अमीन- दीवी द्वीप समूह और पांडिचेरी		
उत्पादक द्वारा	थोक विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा	उत्पादक द्वारा	थोक विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा	
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
(क) टिन के आधानों में (किलोग्रामों में शुद्ध धारिता)						
16.5	86.54	92.03	93.35	83.16	88.48	89.80
15.0 (*)	79.00	84.00	85.20	75.93	80.78	81.98
4.0	22.73	24.15	24.47	21.91	23.29	23.61
2.0	11.85	12.58	12.74	11.44	12.15	12.31
(ख) लोटाये जाने योग्य जस्तेदार इस्पात के ड्रमों में						
प्रति किलोग्राम शुद्ध	5.25	5.58	—	5.04	5.36	—
(ग) खुला थोड़ी मात्रा में						
प्रति किलोग्राम शुद्ध	—	—	5.66	—	—	5.44

जोन "ग"			जोन "घ"			
असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, मणीपुर, नागालैंड, उत्तर पूर्व सीमान्त अधिकरण, त्रिपुरा और मेघालय			गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली तथा गोवा, डमन और दीव			
उत्पादक द्वारा	थोक विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा	उत्पादक द्वारा	थोक विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा	
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	
(क) टिम के आधानों में (किलोग्राम में शुद्ध धारिता)						
16.5	85.34	90.77	92.09	85.41	90.84	92.16
15.0(*)	77.91	82.86	84.06	77.98	82.93	84.13
4.0	22.45	23.85	24.17	22.46	23.86	24.18
2.0	11.70	12.42	12.58	11.70	12.43	12.59
(ख) लौटाए जाने योग्य जस्सेदार इस्पात के ड्रमों में						
प्रति किलोग्राम शुद्ध	5.17	5.50	---	5.18	5.51	---
(ग) झुला थोड़ी मात्रा में						
प्रति किलोग्राम शुद्ध	---	---	5.58	---	---	5.59

टिप्पण :

- (1) (\*) वास्तविक क्वालिटी—विशेष अनुज्ञा के अधीन विनिर्मित ।
- (2) उत्पादक द्वारा विक्रय के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट कीमत सीमाओं में ढुलाई सम्मिलित है किन्तु उनमें उत्पाद शुल्क, विक्रय-कर, चूंगी, सीमाकर और ऐसे ही अन्य स्थानीय कर सम्मिलित नहीं है ।
- (3) थोक विक्रेता द्वारा और फुटकर विक्रेता द्वारा विक्रय के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट कीमत सीमाओं के ढुलाई और उत्पाद शुल्क सम्मिलित है किन्तु विक्रय कर, चूंगी, सीमा कर और ऐसे ही अन्य स्थानीय कर सम्मिलित नहीं हैं ।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना में—

- (1) “फुटकर विक्रेता” से ऐसा व्यवहारी अभिप्रेत है जो किसी एक उपभोक्ता को एक समय में 16.5 किलोग्राम से अधिक बनस्पति तेल उत्पाद विक्रय करता है।
- (2) “थोक विक्रेता” से ऐसा व्यवहारी अभिप्रेत है जो,
  - (क) किसी फुटकर विक्रेता को किसी मात्रा में, या
  - (ख) किसी उपभोक्ता को एक समय में 16.5 किलोग्राम से अधिक बनस्पति तेल उत्पाद विक्रय करता है।

[मं० 12-2/70-सी० एण्ड पी०-5]

एफ० जी० टी० मैनेजिज,  
निदेशक (बनस्पति)।

